Minda Industries Ltd.



Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174

Date : 19/07/2021

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Ltd.			
Listing Deptt., Exchange Plaza,	Regd. Office: Floor - 25,			
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),	Phiroze Jeejeebhoy Towers,			
Mumbai - 400 051	Dalal Street, Mumbai-400 001.			
NSE Scrip: MINDAIND	BSE Scrip: 532539			

Sub: - Submission of the newspapers clippings

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, we hereby enclose copies of the Notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company **published on 18 August, 2021 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers** in respect of information regarding 29th Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, 12 August, 2021 at 10.30 a.m. through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

Thanking you,

Yours faithfully, For Minda Industries Ltd.

Tarun Kumar Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

Revastava



WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

DEVELOPMENT OF NOIDA INTERNATIONAL AIRPORT

Zurich airport signs shareholder agreement with UP govt

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 17

THE ZURICH AIRPORT International on Saturday signed a shareholder agreement with the Uttar Pradesh government's entity NIAL in Lucknow for the development of the Noida International Airport, a statement said.

Arun Vir Singh, CEO, Noida International Airport (NIAL), and Christoph Schnellmann, CEO, Yamuna International Airport (YIAPL), signed the agreement in the presence Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath and senior officials of the UP government, the Zurich Airport International's statement said. YIAPLis a 100% subsidiary of Zurich Airport International and has been incorporated to develop the Noida International Airport in Jewar, which is around 70 km from the main Delhi region.

According to the agreement, NIAL will hold one golden share in YIAPL and the right to nominate two directors to the board.

"The directors to be added to the board will be Arun Vir Singh,

CEO, NIAL, and Vishak Iyer, director, civil aviation, Government of Uttar Pradesh," it added.

The shareholder agreement also underpins the UP government's support to "establish and continuously improve surface access to the airport, establish and expand utilities required to run the airport (water, electricity, waste water), maintain law and order, including monitoring at the airport, and grant the necessary clearances to build and operate the airport".

"The signing of the shareholder agreement is the next step in the direction of progress for the state. The Noida International Airport will be the benchmark for a modern, world-class airport in India," a statement quoted Adityanath as saying.

The Zurich Airport International had outbid **Delhi International Airport** (DIAL), Adani Enterprises

and Anchorage Infrastructure Investments Holdings to win the 40-year concession for the Noida airport in November 2019

"It will accelerate the development of industrial infrastructure, boost tourism, promote exports, ease air traffic and lead to creation of more jobs in the state. It will generate multidimensional progress, leading to economic development in

Uttar Pradesh," he added. Last month, the YIAPL had announced that it has secured a

loan of ₹3,725 crore from the State Bank of India for the development of Noida international Airport. When it won the bid on November 29, 2019, to build and operate the Noida airport, the Zurich Airport International had said the airport will be able to handle 12 million passengers per year after the first phase of construction.

Officials of the Uttar Pradesh government and the Swiss company had signed a concession agreement on October 7, 2020, to begin the construction of the Noida airport, estimated to cost ₹29,560 crore.

In December 2020, it had submitted the master plan for the first phase of construction to the UP government and selected a four-company consortium to design the passenger terminal for the greenfield airport in Jewar.

The Zurich Airport International had outbid Delhi International Airport (DIAL), Adani Enterprises and Anchorage Infrastructure Investments Holdings to win the 40-year concession for the Noida airport in November 2019.

Delhi airport's T2 terminal to reopen from July 22

PRESS TRUST OF INDIA

THET2TERMINAL of the Delhi international airport will resume operations from July 22, two months after it was shut down due to significant drop in domestic air traffic owing to the Covid-19 pandemic's second wave, a statement said on Saturday.

TERMING HIS VISIT to Delhi as

successful, Chief Minister B S

Yediyurappa on Saturday said

'Party high command has

asked me to continue as CM'

The resumption of opera- handling flight operations. tions at T2 from July 22 onwards will be with approximately 200 air traffic movements (100 departures and 100 arrivals) per day and increase progressively up to around 280 movements by August-end, the statement of Delhi airport's operator DIAL said. Currently, only the T3 terminal of the Delhi airport is

"The T2 terminal will resume operations with IndiGo's 2000-2999 series flights and entire operations of GoAir, and is expecting to witness around 25,000 passenger footfall in the initial phase," the Delhi International Airport (DIAL) stated.

About 27 counters – 11 for GoAirand 16 for IndiGo - will be

available to cater to the passengers of respective flights, it said.

The decision to resume T2 operations was taken after the **Delhi airport started witnessing** gradual growth in passenger footfall post relaxation in lockdown and travel norms by various states since June this year, it noted. The T2 terminal had started handling flight operations on October 1 last year.

Canara Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Branch: SSI, Gurgaon, Sun Towers,
Sukhrali, Gurgaon, HR-122001

Notice U/s 13(2) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002.

DEMAND NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Canara Bank under SARFAESI Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Rules, issued Demand Notice dated 08-Jan-2021 under Section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower: Somesh Chaudhary H. No. 1579, Sector-10 A, Housing Board Colony, Gurgaon - 122001 to repay the amount mentioned in the Notice, within 60 days from the date of receipt of Notice, as per detail given below. The said Notice have either been returned undelivered by the postal authorities or have not beer acknowledged by the borrower/guarantor. Hence the Bank by way of abundant caution is effecting this publication of the demand notice. The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrowers/ mortgagors / guarantors as per the said Act. Copies of the said Notices are available with the undersigned; and the said Borrowers mortgagors / guarantors, may, if they so desire, collect the said copies from the undersigned on any working day during normal office hours. Against the above background, Notice is hereby given, once again, to said Borrowers to pay to Canara Bank, within 60 days from the date of publication of this Notice, the amount Rs. 3,53,233.38 (Rupees Three Lacs Fifty Three Thousand Two Hundred Thirty Three and Thirty Eight paise only) is due along with interest from 31/12/2020 and costs etc. together with future interest at contractual rates and rests from the dates mentioned below till the date of payment under the loan & other documents. As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged / hypothecated to Canara Bank by the respective borrowers. I the said borrowers / guarantors fail to make payment to Canara Bank as aforesaid, Then Canara Bank shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the SARFAESI Act and Rules entirely at the risk of the said borrowers / mortgagors / guarantors as to the costs and consequences. Further, attention is invited to provisions of Sub-section (B) of the Section 13 of the Act, In respect of time available, to redeem the secured assets. You are prohibited under the SARFAESI Act from transferring the secured assets, whether by way of sale, Lease or other wise with out the prior written consent of Canara Bank. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules shall be liable for imprisonment and / or fine as given under Section 29 of the Act. Date of NPA 31.08.2018, Description of the Movable Property:- MARUTI SUZUKI RITZ VDI, Reg. No.

HR26 CP8739, Engine No. D13A5115916, Chasis No. MA3FDEB1S00524946. Date: 18.07.2021 Place: Gurgaon **Authorised Officer, Canara Bank**

...the name you can BANK upon!

Central leaders have asked him to continue in his post and that there was no discussion on leadeveryone along.

पंजाब नैशनल बैंक

ership change. "The central leaders have asked me to continue as chief minister and strengthen the party.It is our duty to follow their instructions from time to time. There is no question of leadership change," Yediyurappa told reporters here on his return from New Delhi. Earlier in the day, Yediyurappa had dismissed news reports about his resigna-

Denying any discussion on

tion as chief minister as "not at

dearth of substitute leaders in the BJP. However, he maintained that the party has given him the charge and he will work to strengthen the party by taking

emphasised that there was no

alternative leadership,

Yediyurappa had called on Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP president J P Nadda in the national capital during his two-day visit and held discussions on issues ranging from politics to Mekedatu balancing reservoir across Cauvery river, which is a bone of contention between Karnataka and Tamil Nadu.

punjab national bank

ZONAL SASTRA CENTRE- DELHI, 1st Floor, 7 Bhikaji Cama Place, Africa Avenue, New Delhi - 110066, E-mail: zs8343@pnb.co.in

On behalf of Consortium of banks led by IDBI Bank Limited

Comprising of IDBI Bank Limited (Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055), Punjab National Bank (Zonal Sastra Centre, 1st Floor, Bhikaji Cama Palce, 7 Africa Avenue, New Delhi-110066), State Bank of India (Stressed Assets Management Branch-II, Delhi, erstwhile State Bank of Bikaner & Jaipur (SBBJ) & State Bank of Hyderabad (SBH) Axis Bank Limited (Axis House, Tower 1, 4th Floor, Sector 128, Noida-201301), Vijaya Bank (Now-Bank of Baroda) Corporate Banking Branch - I Vijaya Building, 17, Ground Floor Barakhamba Road, New Delhi - 110001, Union Bank of India (IFB) (M-11, Middle Circle, Connaught Place, New Delhi-110001), Oriental Bank of Commerce (M-1/2/3, Middle Circle Connaught Place, New Delhi-110001), Syndicate Bank (C-18, Shopping Centre No. 1, Pachim Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057), Bank of Maharashtra (Press Enclave Branch (E-11, 12 Press Enclave, New Delhi-110017, Canara Bank (74, Janpath, New Delhi-110001), Indian Bank (Stressed Asset Management Vertical, Upper Ground Floor, World Trade Centre, Babar Road, Delhi-110001, Bank of Baroda (MCB, 3rd Floor, Sansad Marg, New Delhi-110001, Bank of India (LCB, 10th Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-

110001), Andhra Bank (Stressed Management Branch Vertical, B-29, Second Floor, Connaught Place, Inner Circle, New Delhi-110001. "APPENDIX- IV-A" [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties

Private Treaty Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditors, the constructive/physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of Punjab National Bank on behalf of Consortium of banks Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 06.08.2021, for recovery of Rs. 1067,75,96,893.11 (Rs. One Thousand Sixty Seven Crores Seventy Five Lakhs Ninety Six Thousand Eight Hundred Ninety Three and Paisa Eleven only) +unapplied interest from date of NPA to till the loan is fully liquidated + other charges) due to the Consortium of banks led by IDBI Bank Limited Secured Creditors from M/s Shilpi Cable Technologies Limited (Principal Borrower Company, Presently under Liquidation vide NCLT order dated 01.05.2019 in the matter of Macquarie Bank Limited V/s Shilpi Cable Technologies Limited); Mr. Mukesh Kumar Gupta s/o Late Mr. Hari Shankar Gupta (Director cum Guarantor cum Mortgagor); Mr. Manish Goel s/o Mr. Mukesh Kumar Gupta (Director cum Guarantor); Mr. Vishal Goel s/o Mr. Mukesh Kumar Gupta (Guarantor cum Mortgagor); M/s Shilpi Cable Private Limited (Corporate Guarantor cum Mortgagor, Presently under Liquidation vide NCLT order dated 20.08.2019 in the matter of BDR Builders & Developers Pvt Ltd v/s Shilpi Cable Private Limited (Corporate Guarantor) and M/s MVM Impex Private Limited (Corporate Guarantor) The reserve price will be Rs.1,30,00,000/- (Rs. One Crore Thirty Lakhs only).

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Description of the Name of the Account & immovable property to Name of the Borrower / be sold with the Guarantor & Address name/s of the owner/s

M/s. Shilpi Cable Technologies Ltd. (Borrower) Registered office: A-19/B-1 Extension, Mohan Coop Industrial Estate, PO Badarpur, Mathura Road, New Delhi-110044, Also at: SP-1037, Chopanki, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Distt-Alwar, Rajasthan-301019, Also at: E-138, RIICO, Industrial Area, Phase- I Bhiwadi, Distt-Alwar, approximately 300 sq Axis Bank Limited 15.11.2018, Rs. 2822.95 Rajasthan-301019

Mr Mukesh Kumar Gupta (Guarantor / Mortgagor) Mr Vishal Goel (Guarantor / Mortgagor) Both at: Block D Plot No. D-1112 New Friends Colony Delhi-110065, Also at:- R/o:- B-8, Chirag Enclave, Opp. Nehru Place, Greate

Kailash-1, New Delhi-110019

financialexp.epap.in

Mr. Manish Goel (Guarantor / Mortgagor), Block D Plot No. D-1112 New Friends Colony Delhi-110065, Also at: Flat No. 904 Tower H EWS Sector-11 Pratap Vihar Ghaziabad UP-201009 M/s Shilpi Cable Private Limited (Corporate Guarantor

M/s Shilpi Communication Private Limited (Corporate

Guarantor / Mortgagor) M/s MVM Impex Private Limited (Corporate Guarantor Mortgagor), All corporate guarantor at: A-19/B-1 Extension Mohan Co-Operative Industrial Estate Mathura Road, PO Badarpur Delhi-110044

Details of Date of demand encumbrances, Reserve Date of Notice u/s 13(2) and amount known to the Price fixed Bank, if any Property situated at IDBI Bank Limited 15.12.2017 Rs 06-08-202 Rs. Not known MCD No. 269, Khasra 22580.17 lakh 130.00 No. 358 AALI Industrial Punjab National Bank 02.01.201 Lakhs Complex Mathura Road Rs. 12865.33 lakh, State Bank of India Delhi measuring 28.11.2018, Rs. 22004.33 lakh, yards owned by Sh. lakh, Vijaya Bank 04.12.2017, Rs. 5811.84 lakh, Union Bank of India 08.01.19 Rs. 7012.51 Oriental Bank of Commerce 13.11.18 Rs.3662.71 lakh Syndicate Bank 27.12.2017 Rs.3545.37 Bank of Maharashtra 15.11.2018, Rs 4782.02 lakh, Canara Bank 30.01.2019, Rs. 7795.23 lakh Bank of India 20.01.2018, Rs. 6482.01 lakh Andhra Bank 08.11.2018, Rs. 7411.47 lakh. Total Rs.1067,75,96,893.11 (Rs. One Thousand Sixty Seven Crores Seventy Five Lakhs Ninety Six Thousand Eight Hundred

Terms & Conditions: The sale shall be subject to the terms & conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS"

Mukesh Kumar Gupta

2. The particulars of Secured Assets specified in the schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.

Ninety Three and Paisa Eleven only)

unapplied interest + other charges from date

of NPA to till the date of full and final payment

The sale will be done by the undersigned through private treaty under SARFAESI Act.

Date: 16.07.2021 Place: Delhi

(Sh. Sandeep Puri) Asstt. General Manager Authorised Officer Punjab National Bank, Secured Creditor

Ola e-scooter gets 1L reservations in 24 hrs

FE BUREAU Chennai, July 17

OLA ON SATURDAY announced that its soon-to-be-launched electric scooter received 1 lakh reservations within the first 24 hours, making it the most prebooked scooter in the world. Ola Electric opened the

reservation for its electric scooter in the evening of July 15 for ₹499 via olaelectric.com.The company has been seeing

CJI: Projected pendency of 45 m cases in courts an overstatement, uncharitable analysis

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 17

THE PROJECTED STATISTICS that pendency in Indian courts has reached 45 million cases, which is perceived as the inability of the Indian judiciary to cope with the caseload, is an "overstatement" and an "uncharitable analysis" and one of the factors contributing to judicial delays is "luxurious litigation", Chief Justice of India N V Ramana said on Saturday.

He said conflicts are unavoidable in any society for various reasons, including political, economic, social, cultural and religious, and there is a need to develop mechanisms for conflict resolution and referred to the Mahabharata, providing an example of an early attempt at mediation as a conflict resolution tool.

Mediation is deeply embedded into the Indian ethos and was prevalent before the British adversarial system in India, various forms of mediation were being practised as a method of dispute resolution, he said.

'IMPORTANT''

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

unprecedented demand from customers who continue to throng the website to book the scooter in record numbers, the Ola Electric said.

Bhavish Aggarwal, chairman and group CEO, Ola, said: "I am thrilled by the tremendous response from customers across India for our first electric vehicle.The unprecedented demand is a clear indicator of shifting consumer preferences to EVs. This is a huge step forward in our

mission to transition the world to sustainable mobility. I thank all the consumers who have booked the Ola Scooter and have joined the EV revolution. This is only the beginning."

Ola Scooter will be made in India and manufactured at the firm's ₹2,400-crore modern Futurefactory. The firm claims it to be the world's largest, most advanced and greenest two-wheeler factory, being built in Krishnagiri district in Tamil Nadu.

Bajaj Auto starts booking for e-scooter

BAJAJ AUTO ON Saturday said it has commenced bookings for its electric scooter Chetak in Nagpur from July 16.

With the aim of providing a seamless and convenient booking experience, customers can book the vehicle exclusively online on www.chetak.com for ₹2,000, the company said.

MINDA INDUSTRIES LTD. (CIN: L74899DL1992PLC050333)

Registered Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052

Website: www.mindagroup.com E-mail: tksrivastava@mindagroup.com Tel.: +91 11 49373931 Fax: +91 124 2290676/95

MINDA

INFORMATION REGARDING 29TH ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') OF MINDA INDUSTRIES LIMITED ('THE COMPANY')

The 29th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual

Means ("OAVM") on Thursday, August 12, 2021 at 10.30 a.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the

Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https://www.evoting.nsdl.com Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for

the financial year 2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto. will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.unominda.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively

Manner of registering / updating email addresses:

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at investor@mindagroup.com along with the copy of the signed request letter mentioning the Folio Number, name and address of the Member, scan copy of share certificate (front and back). self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to investor@mindagroup.com

PROCEDURE FOR JOINING THE AGM THROUGH VC / OAVM:

Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC / OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under Members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC / OAVM will be available in Members login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the Members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice. Further Members can also use the OTP based login for logging into the e-voting system of NSDL. For further instructions refer Notice of AGM.

 ii) The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

ii) Members who need assistance before or during the AGM with use of technology, can send a request at evoting@nsdl.co.in or use Toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-224-430; or

v) Institutional Members are encouraged to attend and vote at the AGM through VC / OAVM. In case any Institutional Members facing issues for participating in AGM can write to investor@mindagroup.com and evoting@nsdl.co.in

v) It is recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of connectivity glitches

Members holding shares in physical form are advised to submit particulars of their bank account viz. name and address of bank, MICR code, IFSC code, type of account, blank cheque and such other particulars as may be required to the Registrar & Transfer Agent of the Company to receive direct credit of dividend. Members holding shares in demat mode are requested to update their bank account details in their demat account to receive dividend through ECS and/or other electronic mode.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

By order of the Board of

Place: Gurugram, Haryana

Tarun Kumar Srivastava

Date: July 17, 2021

Company Secretary & Compliance Officer



e-AUCTION SALE NOTICE (Under SARFAESI Act 2002)

ZONAL OFFICE, RECOVERY DEPARTMENT, 1ST FLOOR, 5, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001, PH:011-23753827, 011-49498261, 011-49498285 E-Auction Sale of Immovable Property mortgaged to the bank under Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) read with rules 5,6,7,8 & 9 of the Security Interest (Enforcement Rules, 2002). Possession of the following property has been taken over by the Authorised Officer(s), pursuant to the Notice issued u/s 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 in the borrowal accounts mentioned below with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS" AND "WHAT IS WHERE IS" basis for realization of Banks Dues. Last date for bidder's registration on the portal is 06.08.2021 at 02:00 PM. Date and time of E-Auction: 10th August 2021 Between 01:00 P.M to 05:00 PM with unlimited extensions of 10 minutes each.

DESCRIPTIONS OF THE IMMOVEABLE PROPERTIES SI. Name of Branch IFSC Code Name of Borrower Amount Dues Name of Owner Type of Identified Properties Reserve Frice Date of Inspection of Discovery

No.	No., A/c No Tel. No: E-mail	& Guarantor	[Rs. in Lakh]	of Property	Possession	identified Properties	EMD(Rs.in Lacs)	Properties Contact Person	DUES, FANY		
	Branch New Delhi IFSC CODE- UCBA0000234 EMD Account No. 02340210003503 E-mail: punjab@ucobank.co.in	Mr. Inderpal Wadhawan and Mr. Taran Pal Wadhawan	Lakh and Business Loan of Rs.402.17 Total of Rs.1190.30 Lakh plus further interest and other charges etc. thereon	WADHAWAN AND MR. INDER PAL SINGH	Possession	Plot No.24, Street D-1, Vasant Vihar, New Delhi. Admeasuring 418 Sq. Yards	Rs. 690.00 Lacs Rs. 69.00 Lacs	05.08.2021 Branch Manager Mrs. Tripti Kumari Authorised Officer Mobile: 8765408169			
For further queries and details you may contact to Mr. Ditach Singh (Chief Manager) 9650349966											

For further queries and details you may contact to Mr. Ritesh Singh (Chief Manager) 9650349966, Mr. Swagat Goyal (Senior Manager) 9872582589 or Mr. Rohit Pahuja (Senior Manager) 9519517777 Terms & Conditions:

The auction sale will be "Online E-Auction"/Bidding through e-Bikray web portal invariably. URL for Prospective buyers: https://ibapi.in and URL for Auction website: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp. Auction to be held on 10.08.2021 between 01:00 P.M to 05:00 PM as per time mentioned above against above property (IST) with unlimited extension of 10 minutes each. All intending bidders shall register with the e-auction portal to create their user ids and passwords. Bidders have to register online by providing their KYC

documents and registration fees as prescribed by Service Provider(MSTC). Once the KYC documents are verified by MSTC, the registration will be activated within a period of maximum two working days from the date of submission of all KYC documents and registration fee. Intending bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance which is mandatory for e-bidding from

MSTC Helpdesk: 033-22901004, Operation / Registration Status: ibapiop@mstcecommerce.com . Finance / EMD Status: ibapfin@mstcecommerce.com Helpline e-mail ID: rranjan@mstcindia.co.in

Intending bidders are advised to go through the website https://ibapi.in for detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids and taking part in e-auction sale proceeding.

Bids shall be submitted through online only in the prescribed format with relevant details. Last date for bidder's registration on the portal is 06.08.2021 up to 02:00 PM.

Earnest Money Deposit (EMD) for the above property shall be deposited through Fund transfer by NEFT/RTGS only to the Wallet of Service Provider (MSTC) after registration on the portal before 5:00PM on 09.08.2021.

A copy of the bid form along with the enclosure submitted online (mentioning UTR No) shall be handed over to the Authorised Officer/Branch Manager, UCO Bank, respective branches or soft copies of the same be forwarded by E-mail to: zonewdelhi.rec@ucobank.co.in

The bid price shall be equal to/or more than the Minimum Reserve Price (MRP) but must be in multiples of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh Only). Please note that the first online bid (H1) that comes in the system during the online forward auction can be one increment higher than the highest of the bids received upto last date of submission of the bids i.e. higher than the start price by one increment or higher than start price by multiple of increments. During auction, the subsequent bid that comes in to outbid the H1 rate will have to be higher than the H1 rate by one increment value or in multiple of the increment values.

The successful bidder shall have to pay 25% of the bid amount (including earnest money already paid) immediately on closure of the E-auction Sale process

on the same day of the Sale in the same mode as stipulated in Clause 7 above. The balance 75% of the purchase price shall have to be paid within 15 days of acceptance/confirmation of sale by the undersigned to the successful bidder.

11. If the successful bidder failed to deposit the bid amount as per schedule noted above, the amount deposited by bidder shall be forfeited.

12. The EMD of unsuccessful bidder(s) will be returned on the closure of the e-auction sale proceedings. The sale is subject to confirmation by the Bank, if the borrower/guarantor pays the bank in full before sale, no sale will be conducted.

14. The property will be sold on "As is where is and what is where is" basis and the intending bidder should make discreet enquiries as regards to the property of any authority besides the banks charges and should satisfy themselves about the title, extent, quality and quantity of the property before submitting their bid. No claim of whatsoever nature regarding the property put for sale, charges, encumbrances over the property on any other matter etc. will be entertained after submission of the online bid.

 The undersigned has the absolute right and discretion to accept or reject any bid or adjourn/postpone/cancel the sale/modify any terms and conditions of the sale without any prior notice and assigning any reason.

16. The purchaser shall bear the stamp duties, charges including those of sale certificate registration charges, all statutory dues payable to Government, taxes and rates and outgoing both existing and future relating to the property. The sale certificate will be issued only in the name of successful bidder. The sale is subject to conditions prescribed in the SARFAESI Act/Rule 2002 and the conditions mentioned above.

THIS PUBLICATION IS ALSO 15 DAYS SALE NOTICE TO THE ABOVE MENTIONED BORROWERS/GUARANTORS/MORTGAGORS UNDER SARFAESI ACT 2002 DATE: 18.07.2021

New Delhi

PLACE: NEW DELHI

UCO Bank, Zonal Office, Recovery Department, New Delhi

Authorised Officer.

Minda Industries Limited

28.2 डि.से.

जनसत्ता, नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2021 4

धोखाधड़ी मामले में कंपनी के दो निदेशकों को नहीं मिली जमानत

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दूसरे की जमीन पर परियोजनाएं शुरू करने

और आवश्यक मंजूरी के बिना ही इकाइयां बेचने के आरोप में गिरफ्तार रियल एस्टेट कंपनी के दो निदेशकों

को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने कहा

कि ऐसे आर्थिक मामलों में जमानत देने में सख्ती की जरूरत है ताकि लोगों का न्याय प्रणाली से विश्वास नहीं उठे। जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आरोपी सुशांत मुतरेजा और निशांत मुतरेजा की कंपनी का उत्तर प्रदेश में जमीन के संबंध में कोई स्पष्ट मालिकाना हक नहीं है। अदालत न अपने

आदेश में कहा कि सक्षम प्राधिकार, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई और परियोजनाओं को अवैध रूप से शुरू किया गया। जज ने कहा कि अपराध

संगठित तरीके से किया गया था और कई भोले-भाले निवेशकों से उनकी गाढ़ी कमाई ठग ली गई। अदालत ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध करार देते हुए कहा कि

भोले–भाले निवेशकों से उनकी गाढ़ी कमाई ठगा ली गयी, इसलिए दोनों आरोपियों को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। सैकड़ों निवेशकों ने दोनों के खिलाफ करोड़ों रुपए की धोखाधडी करने की शिकायत दर्ज कराई है। दोनों 2015 और 2016 में दर्ज पांच दिल्ली मंत्रिमंडल का फैसला

'ई-टिकटिंग' ऐप से बस टिकट बुक कराने पर दस फीसद छूट

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई।

अब 'ई-टिकटिंग' ऐप से टिकट बुक करने पर डीटीसी बस किराए में 10 फीसद की छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने ई-टिकटिंग को बढावा देने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कोरोना को देखते हुए इससे टिकट खरीदते समय यात्रियों और बस कर्मचारियों के बीच कम मामलों में आरोपी हैं तथा इनकी जांच दिल्ली से कम संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली



ऐप बसों के आने का समय बताएगा क्युआर कोड स्कैन करके होगा भूगतान

मंत्रिमंडल ने किराए में छूट देने को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार के 'कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग ऐप' का व्यापक परीक्षण विशेष रूप से गठित एक टास्क फोर्स के जरिए किया जा रहा है।

दिल्ली में जुलाई 2020 से किए जा रहे इस परीक्षण में जो आंकडे सामने आए हैं उसके

अनुसार अब तक कुल खरीदे गए टिकटों का छह फीसद ऐप के माध्यम से खरीदा गया है। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को मिला कर कुल 6750 बसें हैं। इसमें औसतन 49 लाख यात्री रोजाना यात्रा करते हैं।

अब सभी बसों में निगरानी और ट्रैकिंग केंद्रीकृत और नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ऐप के जरिये टिकट बुकिंग से डाटा मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग में आसानी होगी। परिवहन विभाग को उम्मीद है की ऐप-आधारित टिकटिंग से एक बेहतर यात्री ऑन-बोर्डिंग डेटा भी उपलब्ध होगा।

खबरों में शहर

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस समय पर्यावरण संरक्षण का भाव अंतरराष्ट्रीय विर्मश में भी नहीं था,

उस समय सुंदरलाल बहुगुणा ने समूचे विश्व पर आने वाले खतरे को भांपते हुए स्वयं को पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं, इस मामले का लेकर सोशल मीडिया में 'आप' व भाजपा के नेता आमने सामने नजर आए।

गंदे पानी से नाराज आरडब्लूए ने निकाला मार्च जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली में पानी की किल्लत और गंदे पानी आपूर्ति को लेकर शनिवार को आवासीय कल्याण संगठन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों ने भाजपा नेता विजय गोयल की अगुआई में जल मार्च निकाला। यह मार्च रोहताश नगर विधानसभा में इंदिरा प्याऊ से शुरू हुआ और नत्थू कॉलोनी चौक तक गया। प्रदर्शन में विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली में पानी का संकट और गंदा पानी इसलिए है कि पानी का उत्पादन ९३५ एमजीडी है, जबिक लोगों तक सरकार 500 एमजीडी पानी पहुंचाती है। उन्होंने जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा के हरियाणा संबंधी बयान को गलत बताया। इस मार्च में युनाइटेड रेजीडेंट्स ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ गांधी, मंत्री अमित शर्मा, पूर्व उपमहापौर दिव्य जायसवाल, प्रवेश शर्मा, लोक अभियान के महामंत्री सतपाल भाटिया समेत प्रमुख लोग

शामिल हुए। अंतरस्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई।

राजधानी दिल्ली में अंतरस्कुल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिल्ली राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक मयूर विहार के बाल भवन पबिलक स्कूल की मेधा और सुप्रिया रावत ने जीता। मेधा ने जहां 57 से 60 किलो वर्ग मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता। वहीं, 11वीं कक्षा की सुप्रिया रावत ने 63 से 66

किलोग्राम प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता। स्कूल के प्राचार्य विविध गुप्ता के मुताबिक दोनों स्वर्ण पदक विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और

यमुना प्राधिकरण में तबादले जनसत्ता संवाददाता नोएडा, १७ जुलाई।

उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमागहमी के शुरू होने

से पहले तबादलों की कडी में शासन स्तर से औद्योगिक प्राधिकरणों में व्यापक फेरबदल किए गए हैं। इसके तहत नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में तीन दर्जन से अधिक अधिकारियों को इधर से उधर भेजा गया।

'नीट में आरक्षण न रोके केंद्र सरकार'

नई दिल्ली, 17 जुलाई।

जनसत्ता संवाददाता

राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के ऑल इंडिया कोटा में केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्तर पर ओबीसी आरक्षण रोक दिए जाने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने विरोध जताया है। उन्होंने पिछडा वर्ग कोटे के सांसदों से मानसून सत्र में संसद में आरक्षण पर बहस के लिए विशेष सत्र बलाने की मांग की है। संबंधित एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ हंसराज सुमन ने ओबीसी आरक्षण को खत्म किया जाना संविधान के विरुद्ध बताया है और कहा है कि सरकार धीरे-धीरे उच्च शिक्षा में आरक्षण समाप्त कर रही है।

किसानों के साथ बात

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने किसानों द्वारा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन से पहले रविवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे।

करेगी दिल्ली पुलिस

संयक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मानसन सत्र के दौरान प्रतिदिन करीब 200 किसान संसद के बाहर धरना–प्रदर्शन करेंगे। हालांकि. किसान नेताओं ने यह साफ नहीं किया है कि उन्हें संसद के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है या नहीं ? दिल्ली पलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन से पहले रविवार को किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर किसानों को प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की पेशकश की जाएगी।

जेल में कैदियों से मिल

सकेंगे परिजन

कोरोना मामले कम होने के बाद जेलों में

फिर से मुलाकात की प्रक्रिया सोमवार से शुरू

हो जाएगी। महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया

कि कोरोना मामले कम होने के बाद यह फैसला

लिया गया है। यह मुलाकात तिहाड़, मंडोली व

रोहणी जेल में शुरू की जाएगी। अभी एक कैदी

से केवल एक ही परिवार वाले 15 मिनट के

लिए मिल सकते हैं। यह सुविधा अभी महीने में

एक बार मिलेगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के

मिण्डा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

वेबसाइट : www.mindagroup.com ई-मेल : tksrivastava@mindagroup.com

पंजीकत कार्यालय : बी-64/1, वजीरपुर इण्डिस्ट्यल एरिया, दिल्ली-110052

दूरभाष : +91 11 49373931 फैक्स : +91 124 2290676/95

निर्देशों का पुरा पालन किया जाएगा।

सीआईएन : L74899DL1992PLCO50333)

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली कांग्रेस ने पेश किया मुफ्त पानी योजना का रिपोर्ट कार्ड

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई।

जनसत्ता सवाददाता

नई दिल्ली 17 जुलाई।

को गिरफ्तार किया है।

मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कम्पनी') की 29वीं वार्षिक साधारण

सभा ('एजीएम') के विषय में सुचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लाग होने वाले सभी प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कार्पीरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'')

तथा सेबी द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 08 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्युलर सं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा

साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा लागू होने वाले

सभी सर्क्युलर्स (सामूंहिक रूप से ''संबंधित सर्क्युलर्स'' वर्णित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') सूचीयन

दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुपालन में एजीएम के आमंत्रण की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने

के लिये कम्पनी की 29वीं वार्षिक साधारण सभा वृहस्पतिवार, 12 अगस्त, 2021 को 10.30 बजे पूर्वा. आईएसटी में विडियो कान्फ्रैंसिंग

(''वीसी'')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी। सदस्यगण बीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम

में उपस्थित होने एवं/अथवा https://www.evoting.nsdl.com पर सीधा वेबकास्ट देखने के लिये सक्षम होंगे। कम्पनी अधिनियम. 2013

की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी।

संबंधित सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा बोर्ड के रिपोर्ट, ऑडिटर के रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किये जाने वाले अन्य

वांछित दस्तावेजों के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय विवरणों को कम्पनी के उन सदस्यों को भेजा जायेगा जिनके

ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.unominda.com तथा

क्रमशः स्टॉक एक्सचैंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईटः www.bseindia.com

भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी के पास अपने ईमेल पते अद्यतन नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि फोलियो

नम्बर, नाम तथा सदस्य का पता का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन की गई

प्रति, पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथा किसी अन्य दस्तावेजों (जैसे डाइविंग लाइसैन्स, मतदाता पहचान पत्र, पारपोर्ट) की स्वतः सत्यापित

लेकर जारी एक रिपोर्ट कार्ड में बताया कि दिल्ली सरकार की मुफ्त पानी योजना फेल है और कांग्रेस के कार्यकाल की तलना में दिल्ली में पानी को लेकर आम जनता की शिकायत 209 फीसद तक बढ़ गई है।

शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने यह रिपोर्ट कार्ड जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री डॉ नरेन्द्र नाथ और पूर्व विधायक एवं जल बोर्ड के उपाध्यक्ष चौधरी मतीन अहमद भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक, 2020-21 में शिकायतों की संख्या 1.71 लाख है।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कोड

वाले ताले को खोलकर (लॉक डिकोड) कर

लग्जरी वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश

किया है। पुलिस ने गिरोह के तीन बदमाशों

11 गाड़ियां बरामद की हैं। साथ ही गाड़ियों की

चोरी में इस्तेमाल मशीनें और औजार भी मिले

हैं। पुलिस गिरोह के नेटवर्क से जुड़े अन्य

UNO MINDA

आरोपियों की तलाश में जुटी है।

पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की

जबिक 2013-14 में शिकायतों की संख्या केवल 55,455 थी। दिल्ली के दस अस्पतालों में बढ़ते लीवर, गुर्दे, पेट संबंधी बीमारी के 4.91 पंजीकृत कांग्रेस ने दिल्ली में मुफ्त पानी योजना को मरीजों की संख्या बयान कर रही है। वर्ष 2014-(आरटीआइ) से पता चला है कि इसी दौरान 19238 लोगों की मौत भी हुई।

> 2014-2019 के बीच गंदे पानी की आपूर्ति के कारण लगभग 28 लाख, टाइफाईड के 3 लाख और हैजा के 21 हजार मरीज सामने आए। अनिल कुमार ने कहा कि 2014 की तुलना में 2019 में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में लीवर, किडनी, पेट के मरीजों में 71 फीसद, एम्स में 39 फीसद, राम मनोहर लोहिया में 42 फीसद मरीज बढे हैं।

महंगी गाड़ियां चुराने वाले तीन गिरफ्तार

अपराध शाखा के मुताबिक, एक टीम

आरोपी ने कुछ दिन पहले अशोक विहार

वाहन चोरों के गिरोह की धर-पकड में लगी

है। टीम ने शंकर रोड के पास से क्रेटा कार से

इलाके से यह गाड़ी चुराई थी और इस पर

फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी के लिए

निकलता था। आरोपी की तलाशी में उसके

पास से एक पिस्तौल और कारतूस भी मिला।

पूछताछ में सोनू ने बताया कि उसका साथी

विवेक माहेश्वरी चोरी की गाडियां खरीदता

है। इसके बाद पुलिस ने विवेक को भी धर

दबोचा। विवेक से पृछताछ के बाद उसके

जा रहे वाहन चोर सोन् को दबोचा।

औद्योगिक क्षेत्र में दो नए संपर्क मार्गों से लोगों को मिलेगी राहत

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, १७ जुलाई।

फेज-2 में 3.27 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। इस मौके पर नोएडा विधायक पंकज सिंह ने कहा कि शहर में 2017 से अब तक करीब तीन हजार करोड रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लोकार्पण किया गया है।

इस अवसर पर प्राधिकरण के अधिकारियों बताया कि औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में डीएससी रोड से प्रारंभ होकर सेक्टर-79 तक जाता है। इस मार्ग पर सैमसंग, एवररेडी, सबरोज, लक्सर, मोजर बेयर जैसी नामचीन

साथी मुकीम को भी चोरी की एक गाड़ी के

साथ पकडा गया। इस गाडी से चोरी में

इस्तेमाल होने वाली डी-कोडिंग मशीन,

पुलिस के मुताबिक, आरोपी गाड़ी का

शीशा तोड़ कर दरवाजे खोल लेते थे। इसके

बाद ड़िल मशीन की मदद से स्टेयरिंग लॉक

खोलते थे। इसके बाद डिकोडिंग मशीन की

मदद से लग्जरी वाहनों के सिक्योरिटी कोड की

डीकोड कर नया कोड डाल नई चाबी बना

लेते थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि

वे गियर लॉक लगी हुई गाड़ियों को चोरी नहीं

करते थे, क्योंकि उनमें काफी समय लगता था।

औजार और चाबियां बरामद हुई।

कंपनियां स्थित हैं। इस मार्ग पर सर्विस रोड का निर्माण होने से सेक्टर-80, 81 फेज-2 ग्राम ककराला के साथ साथ सेक्टर-76, 77, 78, औद्योगिक महानगर में दो नए संपर्क मार्गों का 79 ग्राम सलारपुर बरौला आदि के जाने वाले 2021 जून के दौरान प्राप्त सूचना अधिकार लोकार्पण किया गया। यह मार्ग औद्योगिक क्षेत्र वाहनों को आवागमन में सुविधा होगी। यह मार्ग 60 मीटर चौड़ा है। इस कार्य में कुल 2.20 करोड रुपए खर्च किए गए। वहीं. फेज-2 स्थित बी-200 से बी-207ए तक सर्विस रोड का निर्माण कार्य किया गया। इसके तहत सेक्टर-81 से 60 मीटर चौड़ी ककराला सड़क तक 45 मीटर चौड़े मार्ग पर दोनों तरफ कुल 1.60 किमी लंबाई में 5.50 मीटर चौड़ाई में सीमेंट कंक्रीट सड़क की सर्विस रोड का निर्माण कार्य कराया गया। इसके निर्माण में कुल 1.07 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

गुलिस्तानपुर गांव में साथी मजदूर की पीट कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, १७ जुलाई।

थाना सूरजपुर क्षेत्र के गुलिस्तानपुर गांव में रहने वाले एक मजदूर की हत्या का मामला सामने आया। गुरुवार को मृतक का शराब के नशे में अपने साथी के साथ झगड़ा हुआ था।

बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी खविंदर मांझी (42) सूरजपुर के गुलिस्तानपुर गांव में मजदूरी करता था। खविंदर का गुरुवार को शराब के नशे में उसके एक साथी के साथ झगड़ा हुआ था। इस दौरान साथी ने उसे बूरी तरह से पीटा था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार देर रात उसकी मौत हो गई। थाना सूरजपुर प्रभारी अजय कुमार के मुताबिक अभी मृतक पक्ष की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी पैरालंपिक में भाग लेंगे

जनसत्ता संवाददाता

पैरा ओलंपिक बैडमिंटन प्रतियोगिता में चयनित गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि किसी भी खिलाडी के लिए ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक में भाग लेना बहुत ही गौरव की बात होती है। उन्होंने कहा कि वे पदक लाने की हरसंभव कोशिश करेंगे। जिससे

सेक्टर-27 स्थित कैंप कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी ने कहा कि देश में लाखों विश्व में तीसरी रैंक हासिल हुई थी। इसी विकलांग हैं लेकिन वे सुविधाओं व समृचित समर्थन के अभाव में अवसर नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों के मां-बाप का कर्तव्य है कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों का

नमक में मिलावट

पूरा समर्थन करें। ताकि वह अपनी प्रतिभा को निखार कर दुनिया में देश का

बता दें कि सुहास एलवाई देश के प्रथम आइएएस अधिकारी हैं, जिन्हें 24 अगस्त से पांच सितंबर तक तोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया है। इसके पूर्व सुहास ने जनवरी 2020 में ब्राजील में ओपन टूर्नामेंट तथा फरवरी में पेरू ओलंपिक में ओपन टुर्नामेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनको आधार पर उनका चयन किया गया। इस अवसर पर पैरा ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त दीपा मलिक भी मौजूद थीं।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का टी2 टर्मिनल 22 जुलाई से फिर से खोला जाएगा। दुसरी लहर के कारण घरेलु हवाई यात्रियों की संख्या में गिरावट आने की वजह से दो महीने

हवाईअड्डे का टी2 टर्मिनल

22 जुलाई से फिर खुलेगा

दिल्ली हवाईअड्डे के ऑपरेटर डायल ने एक बयान में कहा कि 22 जुलाई से टी2 पर हर दिन लगभग 200 उडानों की आवाजाही (100 प्रस्थान और 100 आगमन) को मंजूरी दी जाएगी और अगस्त अंत तक इसे बढ़ाकर करीब 280 तक किया जाएगा। दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने कहा, 'टी2 टर्मिनल पर इंडिगो की 2000-2999 सीरीज की उडानों के साथ संचालन फिर से शुरू हो जाएगा।

प्रति, सदस्य के पते के समर्थन में, के साथ investor@mindagroup.com पर कम्पनी को लिखकर अपने ईमेल पता को अद्यतन कराएें। डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराऐं। ई-मेल पते के पंजीकरण से संबंधित किसी प्रश्न/कठिनाई के लिये सदस्य investor@mindagroup.com पर

लिख सकते हैं।

www.readwhere.com

तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। **र्डमेल पते के पंजीकरण/अपडैटिंग का तरीका**:

वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने की प्रक्रियाः सदस्यों को एनएसडीएल की ई–वोटिंग) प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेन्शियल्स का उपयोग कर सदस्यों के लॉगिन के अंतर्गत https://www.evoting.nsdl.com पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम का लिंक जहां कम्पनी का ईवीईएन प्रदर्शित होगा, उसमें मेम्बर्स लागिन में उपलब्ध होगा। कृपया ध्यान रहे कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिये यूजर आईडी तथा पास्वर्ड नहीं होगा तथा जो यूजर आईडी तथा पास्वर्ड भूल गये हों, वे सूचना में वर्णित रिमोट ई-वोटिंग निर्देश का अनुसरण कर उसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। पुनः सदस्यगण एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉगिन के लिये ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

ii) सदस्यगण सुचना में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण कर सभा आरंभ होने की निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व तथा पश्चात वीसी/ ओएवीएम पद्धति से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ आधार पर 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा अधिक की शेयरधारिता के धारक शेयरधारक, प्रवर्त्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मख्य प्रबंधन कर्मी, ऑडिट, नॉमिनेशनल तथा पारिश्रमिक समित तथा स्टॉक होल्डर्स रिलेशनशिप समिति के अध्यक्ष, ऑडिटर्स आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ पहले पाओ आधार के कारण प्रतिबंध के बिना एजीएम में शामिल होने की अनुमित है। iii) तकनीकी के उपयोग से एजीएम के पूर्व अथवा उसके दौरान जिन सदस्यों को सहायता की जरूरत हो, वे evoting@nsdl.com पर अनुरोध

भेजें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 का उपयोग करें, अथवा iv) संस्थागत सदस्यों को वीसी/ ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने तथा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यदि संस्थागत सदस्यों को एजीएम में शामिल होने में समस्या हो तो वे investor@mindagroup.com तथा evoting@nsdl.co.in पर लिखें।

किसी भी प्रकार की कनैक्टिविलटी समस्या से निजात पाने के लिये स्टैबल वाई–फाई अथवा एलएएन कनैक्शन के उपयोग की सलाह दी

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को अपने बैंक विवरण अर्थात बैंक का नाम एवं पता, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, खाते का प्रकार, ब्लैंक चेक तथा ऐसे अन्य विवरण जो कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट को अपेक्षित हों, उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है ताकि वे वे लाभांख को सीधे क्रेडिट कर सकें। डीमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से ईसीएस तथा/अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खाता विवरण को अपडेट कराने का निवेदन किया जाता है।

सदस्यों से अनरोध है कि एजीएम की सचना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के तरीके के निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

> बोर्ड के आदेश से मिंडा इंडस्टीज लिमिटेड के लिये

स्थानः गुड़गांव, हरियाणा तिथि: 17 जुलाई, 2021

तरुण कुमार श्रीवास्तव कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पदक लाने की हरसंभव कोशिश

करूगा: सुहास एलवाइ

नोएडा, 17 जुलाई।

दुनिया में भारत का सर ऊंचा हो।

नाम रोशन कर सकें।

बंद होने के बाद यह फिर से खुलेगा

दिल्ली-एनसीआर में मिलावट की फैक्टरी का पर्दाफाश

असली पैकेट में भर रहे थे नकली नमक, धरे गए

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली 17 जुलाई।

राजधानी में जालसाजों ने मिलावट के लिए नमक को भी नहीं छोड़ा। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने एक ऐसी अवैध फैक्टरी का पर्दाफाश किया है, जहां नामी कंपनी के पैकेट में नकली नमक भरकर इसकी आपूर्ति दिल्ली-एनसीआर में की जाती थी। जालसाज असली कीमत पर नकली

नमक बेचकर न सिर्फ धोखाधडी कर रहे थे, बल्कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर रहे थे। पुलिस ने फैक्टरी से 2640 किलोग्राम नमक और नामी कंपनी की पैंकिंग सामग्री बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक को गिरफ्तार किया है। जबकि,

नहीं पता चल सकता था असली है या नकली

पुलिस जांच में यह चौकाने वाला खुलासा हुआ कि प्रत्येक पैकिंग कवर को इस तरह मुद्रित किया गया था कि ग्राहक नकली पैकिंग पर मुद्रित क्यूआर कोड को स्कैन करता था, तो नामी कंपनी की असली वेबसाइट खुलती थी। इससे किसी को नमक के नकली होने का शक भी नहीं होता था।

नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरवाला निवासी 33 वर्षीय महेश उर्फ टोनी के रूप में हुई है। टोनी ही फैक्टरी का मालिक है। पुलिस के अनुसार, मैसर्स टाटा कंज्यूमर

प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि

संजय कुमार ने बाहरी उत्तरी जिला पुलिस

को कंपनी के नाम से नकली नमक बेचे जाने की शिकायत की थी। शिकायत पर मामले की जांच जिला अन्वेषण इकाई (डीआइयू) को सौंपी गई थी। पुलिस ने नकली नमक बनाए जाने के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि बरवाला इलाके में यह अवैध फैक्टरी चल रही है।

फैक्टरी मालिक ने पूछताछ में खुलासा किया कि एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में

उसकी मुलाकात मास्टरजी नाम के एक शख्स से हुई थी। मास्टरजी पैकेट बंद खाद्य पदार्थ के धंधे से जुड़ा हुआ था। उसने महेश को कारोबार शुरू करने के लिए बोला। करीब एक साल पहले टोनी ने बरवाला जैन कॉलोनी में किराए के मकान में नकली नमक की फैक्टरी शुरू की। पुछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दिल्ली के नया बाजार इलाके से नामी कंपनी की पैकिंग का नकली सामान खरीदता था। लोग इसी कंपनी का नमक सबसे ज्यादा खरीदते थे। यह देखकर उसने उस कंपनी का नाम इस्तेमाल किया था। फैक्टरी पर छापेमारी कर पुलिस ने 2640 किग्रा नकली नमक, नामी कंपनी के 915 खाली पैकेट और उपकरण बरामद किए।